

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 94 /2020- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2020

सा.का.नि (अ)-- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उपधारा (3) और धारा 158 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ. - (1) इन विनियमों को सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (तृतीय अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2020 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विनियम से संदर्भित किया गया है), विनियम 3 में, उपविनियम (1ए) में,-
(क) शब्द "दस लाख रुपए" के स्थान पर, जहां जहां पर वे हो, शब्द "पाँच लाख रुपए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) परंतुक में, शब्द, ब्रेकेट और अक्षर, "प्राधिकृत इकोनोमिक ऑपरेटर (AEO)" के स्थान पर शब्द, ब्रेकेट, अक्षर और अंक " प्राधिकृत इकोनोमिक ऑपरेटर (AEO) और कस्टम्स ब्रोकर जो कि कस्टम्स ब्रोकर लायसेंसिंग रेगुलेशन्स, 2018 के अंतर्गत लाइसेंसड है" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- उक्त विनियमों में, विनियम 15 में;
(क) उपविनियम (1) में, शब्द, अंक और अक्षर "15 मई, 2020 से लेकर 30 सितंबर, 2020" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "1 नवम्बर, 2020 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) उपविनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर " 30 सितंबर, 2020 तक" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "31 मार्च, 2021 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. स. 450/58/2015- सीमाशुल्क IV]

आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: इस प्रधान विनियमावली को सा.का.नि. 448 (अ), दिनांक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 66/2020-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 31 जुलाई, 2020, सा.का. नि. 486 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2020 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया था।